

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
23.03.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3234 का उत्तर

ओडिशा में रिक्तियां

3234. श्री महेश साहू:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

- (क) रेलवे में विभिन्न प्रवेश स्तरों पर रिक्त पदों की जोन-वार संख्या कितनी है;
- (ख) ओडिशा में ऐसी कितनी रिक्तियां हैं; और
- (ग) इन रिक्तियों के कब तक भरे जाने की आशा है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

ओडिशा में रिक्तियों के संबंध में 23.03.2022 को लोक सभा में श्री महेश साहू के अतारांकित प्रश्न सं. 3234 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): भारतीय रेल में विभिन्न एन्ट्री लेवल पदों की रिक्तियों का जोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| जोनल रेलवे | एन्ट्री लेवल में रिक्तियां |
|-------------------------|----------------------------|
| मध्य रेलवे | 9466 |
| पूर्व तट रेलवे | 5264 |
| पूर्व मध्य रेलवे | 5757 |
| पूर्व रेलवे | 9774 |
| मेट्रो रेलवे | 315 |
| उत्तर मध्य रेलवे | 5569 |
| पूर्वोत्तर रेलवे | 6830 |
| पूर्वोत्तर सीमा रेलवे | 6802 |
| उत्तर रेलवे | 19183 |
| उत्तर पश्चिम रेलवे | 7916 |
| दक्षिण मध्य रेलवे | 17022 |
| दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे | 9424 |
| दक्षिण पूर्व रेलवे | 6961 |
| दक्षिण रेलवे | 6454 |
| दक्षिण पश्चिम रेलवे | 6473 |
| पश्चिम मध्य रेलवे | 11101 |
| पश्चिम रेलवे | 15377 |
| कुल | 149688 |

(ख): रिक्तियां का डाटा जोन-वार और डिविजन-वार रखा जाता है न कि राज्य-वार। बहरहाल, पूर्व तट रेलवे, जो ओडिशा राज्य के बड़े हिस्से को कवर करती हैं, में 5264 रिक्तियां हैं। इनमें से लगभग 3607 रिक्तियां ओडिशा राज्य में हैं।

(ग): रिक्तियों का सृजन होना और उन्हें भरना सतत प्रक्रिया है और भर्ती एजेंसियों के द्वारा रेलवे द्वारा इंडेंट प्रस्तुत करके परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रिक्तियों को

भरा जाता है। रेलवे में समूह 'ग' और 'घ' के पदों को रेलवे भर्ती बोर्डों और क्षेत्रीय रेलों के रेलवे भर्ती प्रकोष्ठों के माध्यम से ओपेन मार्केट से चयन करके भरा जाता है। इन एजेंसियों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है और आवधिक रूप से भरा जाता है।
